

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262631
SG-DL-E-23042025-262631असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2025/वैशाख 1, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 22
No. 123]	DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2025/VAISAKHA 1, 1947	[N. C. T. D. No. 22

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

जी0एस0आर0 फा0 1(685)/टीआरसी/स्वा0 एवं परि0 कल्या0/2015/436.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद से संबंधित वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ (1981) भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद् द्वारा वर्ष 2025 में वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—

(क) इन नियमों को वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ख) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे-बैंड एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।7. **बचाव :-** इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ	
2.	पदों की संख्या	:	04 (2025) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-ख, राजपत्रित, अलिपिकीय	
4.	पे-बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800/-रुपये)	
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	चयन	
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं	
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता मानक टीप लागू नहीं अनुभव मानक टीप लागू नहीं	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं	
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पद्धति	प्रतिशत
			पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	100
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) के आहार विशेषज्ञ से तथा उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्र, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में नियमित आधार पर मूल संवर्ग में अपनी	

		<p>नियमित आधार पर नियुक्ति के समरूप पद धारण करते हों अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष।</p> <p>या</p> <p>मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरान्त प्रदान की गई ग्रेड में 3 वर्षों की सेवा सहित अथवा समकक्ष</p> <p>तथा</p> <p>शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले :</p> <p>(क) (i) खाद्य एवं पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण तथा आहार विज्ञान या खाद्य विज्ञान एवं पोषण या खाद्य एवं पोषण आहार विज्ञान या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में आहार विज्ञान में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ख) (i) खाद्य तथा पोषण अथवा गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान या खाद्य विज्ञान एवं पोषण या खाद्य और पोषण आहार विज्ञान या आहार विज्ञान एवं खाद्य सेवा प्रबंधन में बी०एस०सी०।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>(iii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त वैधानिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में आहार विज्ञान में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</p> <p>मानक टीप :</p> <p>जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति के अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	<p>विभागीय पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव (गृह) – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव (गृह) – सदस्य 3. विशेष सचिव/अपर सचिव (शह0वि०) – सदस्य <p>विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।</p>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप.राज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

जगत भूषण कपिल, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th April, 2025

G.S.R. F1 (685)/TRC/H&FW/2015/436.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Senior Dietician (1981) RRs in so far as they relate to the post of the Senior Dietician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Dietician in 2025 namely-

1. Short title and commencement -

- (a) These rules may be called the Senior Dietician Recruitment Rules 2025.
 (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.**3. Number of post, classification and level of pay In the pay matrix -**, The number of post, its classification and the Pay Band and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.**4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.**5. Disqualification - No person -**

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,
 or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post, provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to Relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**7. Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time**SCHEDULE**

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay band and Grade Pay/ Pay Scale	whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Dietician	04* (2025) Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group-B. Gazetted, Non-Ministerial	Level-9 (Rs.53100-167800/-) of the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
6	7

Not Applicable	Essential Qualification: Not Applicable Experience Not Applicable Desirable Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable Qualification Standard Note NA Experience Standard Note NA
----------------	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of Probation, if any	Method of Recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
8	9	10	
Age: No	N.A	Method	Percentage
EQ :NA		Promotion failing which by Deputation	100

In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: From Dietician in the Level 7 (Rs 44900 to 142400) in the Pay Matrix with 3 years regular service in the grade and having successfully completed 2 weeks training as prescribed by the Competent Authority Deputation: Officers under the Central State Govt and Union Territories Holding analogous posts on regular basis in parent cadre	Departmental Promotion Committee 1. Pr. Secretary (Home) Chairperson 2. Addl. Chief Secretary (Home)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary
appointment there to on regular basis in Level 8 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre or department OR With 3 years service in grade rendered after appointment there to on regular basis in Level 7 of Pay matrix or equivalent in the parent cadre or department AND Possessing the educational qualification and experience	3. Special Secretary Member Additional (UD) <u>Departmental Confirmation Committee</u> 1.NA	

<p>(A)</p> <p>1) Master degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management</p> <p>(ii) Two-year practical experience in Dietetics in a 100 bedded hospital of Central/State Governments /Autonomous /Statutory organization/PSUS/Universities/Recognized Research Institutes</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B)</p> <p>1) B.Sc. in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or food and nutrition Dietetics or Dietetics and food Service Management</p> <p>(ii) Post Graduate Diploma in dietetics from a recognized University /institute</p> <p>(iii) Three years practical experience in Dietetics in a 100 bedded hospital of Central/State Governments /Autonomous/ Statutory organization/PSUS, /Universities/Recognized Research Institutes.</p> <p>Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>	<p>(Chairman) 2 NA (member) 3. NA (member)</p>	
--	--	--

By Order and in the name of Lt. Governor

National Capital Territory of Delhi

JAGAT BHUSHAN KAPIL, Dy. Secy.